

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 मार्च 2014—फाल्गुन 20, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2014 (फाल्गुन 20, 1935)

क्र. 4210-वि.स.-विधान-2014.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 7 मार्च 2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उप खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा, इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 7 मार्च 2014

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.